



KEY-PLAN

U) PLOT No. 76 (ABC) में खेतीकरण करने के पर्याप्त सुवर्धन BUILDUP AREA नहीं मिलने के कारण यह नियंत्रण नहीं किया जाये।  
 (ii) अभी आवस्यक सुवर्धन के अतिरिक्त निम्न वर

LOCATION PLAN AS PER MASTER PLAN / SECTOR PLAN

सार्वजनिक विकास योजना 2011 के अनुसार भू उपयोग अधिनियम, 2001 के अन्वय में स्थिति -

आवसीय व्यावसायिक

पूर्ण / आंशिक निर्मित भूखण्ड - # 102  
 बर सौकर निर्मित भूखण्ड - C.V. -  
 खाली भूखण्ड - 2  
 कुल भूखण्ड - 104

योजने के अनुसार योजना के भू उपयोग में सक्रिकी वितरण -

| क्रमांक | भू उपयोग        | क्षेत्रफल | प्रतिशत |
|---------|-----------------|-----------|---------|
| 1       | आवसीय           | 17111.2   | 66.30%  |
| 2       | व्यावसायिक      | 1344.1    | 5.20%   |
| 3       | सड़क            | 6690.9    | 25.74%  |
| 4       | सुवर्धन क्षेत्र | 661.4     | 2.56%   |
|         | कुल             | 25877.6   | 100%    |

योजना की शीट जी.डी.ए. सार्वजनिक विकास योजना 2011 की सड़की भू उपयोग एवं क्षेत्रफल नियंत्रण अधिनियम, 2001 के अन्वय में स्थिति योजना मानचित्र में दर्शाया है।

DILIP KUMAR  
 ARCHITECT  
 CA 2600/20013  
 नाम नियोजक / धारक / विकसित करने वाला का नाम  
 इस्तमाल / संविधान नं०

योजना की भूमि की सम्पूर्णता अधिनियम की धारा 90 के अन्वय में सुरक्षा एवं भूमि का प्रशासनिक नियंत्रण के द्वारा किया गया। योजना की भूमि अधिनियम के अन्वय में सुरक्षा है।

नाम (अभिप्रेत/धारक) नाम विकास समिति  
 अधिकारी उपयुक्त जैन

सोपान/सी / जो एका मीटर की गहराई में दिनांक  
 की अनुमति योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

REGISTRAR GENERAL MIZAM SAHUKARI SAMITI  
 NAME OF SOCIETY - VIKAS SAMITI

NAME OF SCHEME - RAJHANS III

ZONE NO. A-4 SECTOR NO.  
 SCALE 1" = 50' DRG. NO.

Signature (D.P.)      Signature (S.T.P.)

D.P.      S.T.P.

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR